

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 377 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक-एफ 1-40/2019/18.—छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत विश्रामपुर, जिला सूरजपुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. विश्रामपुर नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

**—: अनुसूची :—**

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
2	गुरु घासीदास वार्ड
3	डा. अम्बेडकर वार्ड
4	महात्मा गांधी वार्ड
5	रविन्द्र नाथ टेगौर वार्ड
6	स्वामी विवेकानंद वार्ड
7	छत्रपति शिवाजी वार्ड
8	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड
9	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
10	महाराणा प्रताप वार्ड
11	भगत सिंह वार्ड
12	इंदिरा गांधी वार्ड
13	चंद्रशेखर आजाद वार्ड
14	अहिल्या बाई वार्ड
15	स्वामी दयानंद वार्ड

## विश्रामपुर नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

### वार्ड क्रमांक 01 सुभाष चन्द्र बोस वार्ड

उत्तर —	हमीद खान से राघवेन्द्र दुबे के घर तक
पूर्व —	राघवेन्द्र के घर से विरेन्द्र कुशवाहा के घर तक
दक्षिण —	विरेन्द्र कुशवाहा के घर से संतोष विश्वकर्मा के घर तक
पश्चिम —	संतोष विश्वकर्मा के घर से हमीद खान के घर तक

### वार्ड क्रमांक 02 गुरु घासीदास वार्ड

उत्तर —	रामबिलास कुशवाहा से रामदुलार यादव के घर तक
पूर्व —	द्विवेदी पंडीत के घर से जुगेश्वर घर होते हुये राजेश कुशवाहा के घर तक
दक्षिण —	प्रवीण लकडा के घर से राजेश कुशवाहा के घर तक
पश्चिम —	रामबिलास के घर से प्रवीण लकडा के घर तक

### वार्ड क्रमांक 03 डा. अम्बेडकर वार्ड

उत्तर —	महेन्द्र राजवाडे के घर से कपील सिंह के घर तक
पूर्व —	कपील सिंह के घर से सुदामा यादव के घर तक
दक्षिण —	शदरुदीन के घर से सुदामा यादव के घर तक
पश्चिम —	महेन्द्र राजवाडे के घर से शदरुदीन के घर तक

### वार्ड क्रमांक 04 महात्मा गांधी वार्ड

उत्तर —	भीम यादव के घर से जटा सिंह के घर तक
पूर्व —	श्रीराम यादव के घर से भीम यादव के घर तक
दक्षिण —	रामदीपक के घर से श्रीराम यादव के घर तक
पश्चिम —	जटा सिंह के घर से रामदीपक के घर तक

### वार्ड क्रमांक 05 रविन्द्र नाथ टेगौर वार्ड

उत्तर —	शेखर सिंह के घर से सोमार साय के घर तक
पूर्व —	शेखर सिंह के घर से रामपुकार के घर तक
दक्षिण —	मोहन सिंह के घर से रामपुकार के घर तक
पश्चिम —	सोमार साय के घर से मोहन सिंह के घर तक

### वार्ड क्रमांक 06 स्वामी विवेकानंद वार्ड

उत्तर —	सुदामा के घर से नेहरू के घर तक
पूर्व —	सुदामा के घर से रामप्रसाद के घर तक
दक्षिण —	रामप्रसाद के घर से अशोक के घर तक
पश्चिम —	नेहरू के घर से अशोक भगत के घर तक

**वार्ड क्रमांक 07 छत्रपति शिवाजी वार्ड**

उत्तर —	मंगला यादव के घर से मुरारी भगत के घर तक
पूर्व —	प्रहलाद गिरी के घर से मंगला यादव के घर तक
दक्षिण —	सोनप्यारे के घर से प्रहलाद गिरी के घर तक
पश्चिम —	मुरारी भगत के घर से विजय भगत घर होते हुये सोनप्यारे के घर तक

**वार्ड क्रमांक 08 रानी लक्ष्मी बाई वार्ड**

उत्तर —	राजकिशोर सिंह के घर से पूलिया होते हुये फिरोज खान के घर तक
पूर्व —	फिरोज खान के घर से रामनगीना घर होते हुये विनोद सिंह के घर तक
दक्षिण —	रामनगीना के घर से विनोद सिंह के घर होते हुये गंगा उपाध्याय के घर तक
पश्चिम —	राजकिशोर सिंह के घर से गंगा उपाध्याय के घर तक

**वार्ड क्रमांक 09 पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड**

उत्तर —	लक्ष्मण राव के घर से अजय विश्वकर्मा तक
पूर्व —	पी.व्ही. नायक के घर अजय विश्वकर्मा
दक्षिण —	जी.एम.बंगला से पी.व्ही नायक के घर तक
पश्चिम —	लक्ष्मण राव के घर से जी.एम.बंगला तक

**वार्ड क्रमांक 10 महाराणा प्रताप वार्ड**

उत्तर —	अजीत सिंह के घर से दुकु के घर तक
पूर्व —	यादव के घर से टीनी टॉटस स्कूल तक
दक्षिण —	प्रवीण शर्मा से यादव के घर तक
पश्चिम —	दुकु सिंह के घर से प्रवीण शर्मा के घर तक

**वार्ड क्रमांक 11 भगत सिंह वार्ड**

उत्तर —	सोनी निवास से प्रेम कुमार तिवारी के घर तक
पूर्व —	आर.के. मिश्रा के घर से सोनी के घर तक
दक्षिण —	अशोक स्वाई के घर से आर के मिश्रा के घर तक
पश्चिम —	प्रेम कुमार तिवारी के घर से अशोक स्वाई घर तक

**वार्ड क्रमांक 12 इंदिरा गांधी वार्ड**

उत्तर —	सुभाष चुल्हाय के घर मुमताज बेगम घर होते हुये संजय मिश्रा से डी.ए.व्ही तक
पूर्व —	डी.ए.व्ही स्कूल से हनुमान मंदीर तक
दक्षिण —	हनुमान मंदीर से सुधीर झा के घर तक
पश्चिम —	सुधीर झा के घर से सुभाष चुल्हाय के घर तक

**वार्ड क्रमांक 13 चंद्रशेखर आजाद वार्ड**

उत्तर -	तिलेश यादव के घर से रामबालक पाण्डेय के घर तक
पूर्व -	रामबालक पाण्डेय के घर से कबीर चबुतरा तक
दक्षिण -	कबीर चबुतरा से श्रवण यादव के घर तक
पश्चिम -	श्रवण यादव के घर से तिलेश यादव के घर तक

**वार्ड क्रमांक 14 अहिल्या बाई वार्ड**

उत्तर -	अरबिंद सिंह के घर से तपन पाल के घर तक
पूर्व -	बनारसी राय से अरबिंद सिंह के घर तक
दक्षिण -	बजरंगी शर्मा के घर से पम्प हाउस से होते हुये मनमोहन सोनी के घर से बनारसी राय के घर तक
पश्चिम -	तपन पाल के घर से बजरंगी शर्मा के घर तक

**वार्ड क्रमांक 15 स्वामी दयानंद वार्ड**

उत्तर -	शंभु विश्वकर्मा के घर से अहलु के घर तक
पूर्व -	अहलु घर के से उमा सिंह का घर होते हुये सत्येन्द्र पाल के घर तक
दक्षिण -	सत्येन्द्र पाल के घर से राजेश यादव के घर तक
पश्चिम -	राजेश यादव के घर से शंभु विश्वकर्मा के घर तक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12/07/2019

क्रमांक एफ 1-40/2019/18.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-40/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

### NOTIFICATION

No. F 1-40/2019/18 In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Vishrampur, Distt. Surajpur as per shedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Vishrampur into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

### SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	Subhash Chandra Bose Ward
2	Guru ghasidas Ward
3	Dr Ambedkar Ward
4	Mahatma Gandhi Ward
5	Ravindranath Tagore Ward
6	Swami Vivekanand Ward
7	Chhatrapati Shivaji Ward
8	Rani Laxmi Bai ward
9	Pt. Jawaharlal Nehru Ward
10	Maharana Pratap Ward
11	Bhagat Singh Ward
12	Indira Gandhi Ward
13	Chandrashekhar Azad Ward
14	Ahilyabai Ward
15	Swami Dayanand Ward

**Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat .Vishrampur .****ward No 01 Subhash Chandra Bose Ward**

North	From Hamid Khan house to Raghavendra Dubey house
East	From Raghavendra house to Virendra Kushwaha house.
South	From virendra kushwaha house to santosh vishwakarma house.
West	From santosh vishwakarma house to hamid khan house

**Ward No 02-Guru ghasidas Ward**

North	From Rambilas Kushwaha house to Ramdular Yadav house.
East	From the house of Dwivedi Pandit to the house of Rajesh Kushwaha via Jugeshwar house.
South	From praveen lakda house to rajesh kushwaha house.
West	From rambilash house to praveen lakda house.

**Ward No 03-Dr Ambedkar Ward**

North	From mahendra rajwade house to kapil singh house.
East	From Kapil Singh house to Sudama Yadav house.
South	From Sadrudin house to Sudama Yaday house.
West	From Mahendra Rajwade house to Sadrudin house.

**Ward No 04-Mahatma Gandhi Ward**

North	From Bhim Yadav house to Jata Singh house.
East	From Shri Ram Yadav house to Bhim Yadav house.
South	From Ramdeepak house to Shri Ram Yadav house.
West	From Jata Singh house to Ram Deepak house.

**Ward No 05-Ravindranath Tagore Ward**

North	From Shekhar singh house to Somar saay House
East	From Shekhar Singh house to Ram Pukar House
South	From Mohan Singh house to Ram Pukar House.
West	From Somar Saay house to Mohan Singh house.

**Ward No 06-Swami Vivekanand Ward**

North	From Sudama house to Nehru's house
East	From Sudama house to Ramprasad house.
South	From RamPrasad house to Ashok Bhagat house.
West	From Nehru's house to Ashok Bhagat's house.

**Ward No 07-Chhatrapati Shivaji Ward**

North	From Mangla Yadav house to Murari Bhagat house.
East	From Praladgiri house to Mangla Yadav house.
South	From Sonpyare house to Prahlad Giri house.
West	From Murari Bhagat house to Vijay Bhagat House via Sonpyare house.

**Ward No 08-Rani Laxmi Bai Ward**

North	From rajkishor singh house to foroj khan house via culvert
East	From Firoz Khan house to vinod singh house via ramnagina house.
South	From Ram Nagina house to Ganga Upadhyaya house via vinod singh house
West	From rajkishor singh house to Ganga upadhyay house

**Ward No 09- Pt. Jawahar Lal Nehru Ward**

North	form laxman rao house to ajay vishwakarma house.
East	From PV Nayak house to Ajay Vishwakarma house.
South	form G.M. bangla to PV Nayak house.
West	From laxman rao house to G.M. bangla

**Ward No 10-Maharana Pratap Ward**

North	From Ajit Singh house to Duku Singh house.
East	From Yadav house to Tini Tots school.
South	From Praveen Sharma house to yadav house.
West	From Duku Singh house to Praveen sharma house

**Ward No 11-Bhagat Singh Ward**

North	From Prem Kumar Tiwari house to soni house.
East	From RK Mishra house to Soni house.
South	From Ashok Sawai house to RK Mishra house
West	From Prem Kumar Tiwari house to Ashok Swai house.



**Ward No 12-Indira Gandhi Ward**

North	From shubhas chulhay house to sanjay mishra house via mumtaj begam house.
East	From DAV School to Hanuman Mandir.
South	From Hanuman Mandir to Sudhir Jha house.
West	From Sudheer jha house to Shubhas Chulhay house

**Ward No 13-Chandrashekhar Azad Ward**

North	From Tilesh Yadav house to Ram Balak Pandey house.
East	From Rambalak Pandey house to Kabir Chabutra.
South	From Kabir Chabutra to Shravan Yadav house.
West	From Shravan Yadav house to Tilesh yadav house.

**Ward No 14-Ahilyabai Ward**

North	From Arvind Singh house to Tapan Pal house.
East	From Banarasi Rai house to Arvind Singh house.
South	From Bajrangi Sharma house to Banarasi Rai house via pump house and manmohan soni house.
West	From Tapan pal house to Bajrangi Sharma house.

**Ward No 15-Swami Dayanand Ward**

North	From Shambhu Vishwakarma house to the Ahlu house.
East	From Ahlu house to satyendra pal house via Uma Singh house
South	From Satyendra Pal house To Rajesh yadav house.
West	From Rajesh Yadav house to Sambhu vishwakarma house.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,  
R.EKKA, Deputy Secretary.